

- (v) GSR 1052 dated 2-7-1966
- (vi) GSR 1360 dated 9-9-1967
- (vii) S.O. 321 dated 16-12-1967
- (viii) GSR 1150 dated 3-7-1972
- (ix) GSR 137 dated 22-11-1975
- (x) GSR 336 dated 19-3-1977
- (xi) GSR 1250 dated 24-9-1977
- (xii) GSR 190 dated 4-2-1978
- (xiii) GSR 15(E) dated 1981
- (xiv) GSR 235 dated 15-2-1989
- (xv) GSR 38(E) dated 28-1-1994
- (xvi) GSR 77 dated 18-2-1995
- (xvii) GSR 94 dated 4-3-1995
- (xviii) GSR 274 dated 6-7-1996
- (xix) GSR 317 dated 27-7-1996.

विकास प्रायुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

सांकांनि० 116 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन समूह “क” और समूह “ख” पद भर्ती नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग-विकास संगठन समूह “क” और “ख” भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन समूह “क” और समूह “ख” पद भर्ती नियम, 1996 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“एक वर्ष”

[फा०सं० ए-12018/1/90-प्रशा०(जी)]

एम०पी० जॉन, उप-निदेशक (प्रशासन)

पाद टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में सांकांनि० सं० 185, तारीख 27-4-1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Office of the Development Commissioner  
(Small Scale Industries)

New Delhi, the 6th February, 1997

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the

Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Industry, Small Scale Industry Development Organisation Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts Recruitment Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Industry, Small Scale Industry Development Organisation Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Industry, Small Scale Industry Development Organisation Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts Recruitment Rules, 1996, in the Schedule, against serial number 2, in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“One Year”.

[File No. A-12018/1/90-ADMN(G)]

M. P. JOHN, Dy. Director (Administration)

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 185, dated the 27-4-1996.

(औद्योगिक विकास विभाग)

केन्द्रीय बायलर बोर्ड

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1997

सा.का.नि. 117 —भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय बायलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए तारीख 4 मई, 1996 के भारत के राजपत्र भाग II खंड (3) उपखंड (1) के पृष्ठ 883-884 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास

विभाग) (केन्द्रीय बायलर बोर्ड) की 24 अप्रैल, 1996 को अधिसूचना संख्या 194 में कतिपय प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गये थे जिसमें उन सभी से जिन के उससे प्रभावित होने की संभावना थी। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि और इसके सर्वसाधारण को उपलब्ध होने के 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 23 मई, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और आम जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा विचार किया गया था;

अतः, अब भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बायलर बोर्ड भारतीय बायलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय बायलर (संशोधन) विनियम, 1997 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बायलर रैगुलेशन, 1950 में, रैगुलेशन 393 में, उप रैगुलेशन (बी) के स्थान पर निम्नलिखित उप रैगुलेशन प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(बी) राज्य में उपयोग हेतु भारत से बाहर बने बायलर के विषय में, बायलर के निर्माण ड्राईंग और ड्रॉ, डिजाइन व बनावट के ध्योरे सर्वप्रथम निर्माण के देश में इस्पाकिंग अपार्टी को जांच पड़ताल व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

तत्पश्चात् 100 टन प्रति घंटा या इससे अधिक भाप बनाने की क्षमता वाले फायर्ड बायलर तथा 20 टन प्रति घंटा या इससे अधिक वाले वेस्ट हीट बायलर की निर्माण ड्राईंग और ड्रॉ, डिजाइन व बनावट के ध्योरे तकनीकी सलाहकार (बायलर) को उच्च शक्तियुक्त तथा उच्च तापमान व दबाव पर उपयोग के लिये आधुनिक ड्रॉ और सुदूर नियंत्रण व यंत्रीकरण हेतु, बायलर की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। तत्पश्चात् निर्माण ड्राईंग और ड्रॉ, डिजाइन व बनावट के ध्योरे उस राज्य के मुख्य निरीक्षक बायलर जहां कि बायलर लगाया व उपयोग किया जायेगा, को निर्माण से पूर्व अन्तिम जांच पड़ताल व अनुमोदन हेतु ताकि बायलर के लगाने व पंजीकरण के समय उठने वाले प्रश्नों में बचने हेतु, प्रस्तुत किये जायेंगे।”

[मिसिल सं. 8(3)/96-बायलर्स]

विजय कुमार गोयल, सचिव

पाद टिप्पण :—मूल विनियम एस. आर. ओ. संख्या 600 दिनांक 15 सितम्बर, 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये थे व अन्तिम बार निम्न-लिखित अधिसूचना से संशोधित किये गये थे :

- (1) सा.का.नि. संख्या 178 दिनांक, 24 मार्च, 1990
- (2) सा.का.नि. संख्या 179 दिनांक, 24 मार्च, 1990
- (3) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक, 9 अक्टूबर, 1993
- (4) सा.का.नि. संख्या 516 दिनांक, 23 अक्टूबर, 1993
- (5) सा.का.नि. संख्या 634 दिनांक, 25 दिसम्बर, 1993
- (6) सा.का.नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994
- (शुद्धि पत्र सा.का.नि. संख्या 223 दिनांक, 14 मई, 1994)
- (7) सा.का.नि. संख्या 250 दिनांक, 4 जून, 1994
- (8) सा.का.नि. संख्या 402 दिनांक, 12 अगस्त, 1994
- (9) सा.का.नि. संख्या 427 दिनांक, 20 अगस्त, 1994
- (10) सा.का.नि. संख्या 562 दिनांक, 12 नवम्बर, 1994
- (11) सा.का.नि. संख्या 607 दिनांक, 10 दिसम्बर, 1994
- (12) सा.का.नि. संख्या 83 दिनांक, 25 फरवरी, 1995
- (13) सा.का.नि. संख्या 93 दिनांक, 4 मार्च, 1995
- (14) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक, 9 नवम्बर, 1996
- (15) सा.का.नि. संख्या 582 दिनांक, 28 दिसम्बर, 1996
- (16) सा.का.नि. संख्या 59 दिनांक, 25 जनवरी, 1997।

(Department of Industrial Development)

Central Boilers Board

New Delhi, the 13th February, 1997

G.S.R. 117.—Whereas certain draft regulations, further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, were published, as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), at pages 883-884 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th May, 1996 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) number GSR 194 dated the 24th April, 1996, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 23rd May, 1996;

And whereas objections and suggestions received from the public were considered by the Central Boilers Board.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the

following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 393, for sub-regulation (b), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“(b) In the case of boilers made outside India for use in the State, the manufacturing drawings and particulars of the material, design and construction, of boilers shall be submitted initially to the Inspecting Authority in the country of manufacture for examination and approval.

The manufacturing drawings and the particulars of materials, design and construction in the case of fired boilers of steam generating capacity 100 Tons/hour and above and that of Waste heat boiler of 20 Tons/hour and above shall then be submitted to the Technical Adviser (Boilers) for selection of latest materials with high strengths and use in high temperature and pressure, energy conservation and increased thermal efficiency and remote control and instrumentation for the safety of the Boilers. Thereafter, the manufacturing drawings and the particulars of materials, design and construction shall be sent to the Chief Inspector of Boilers of the State where the boiler will be installed and used, for final examination and approval before commencement

of manufacture so as to avoid questions arising at the time of erection and registration of the boiler.”

[F. No. 6(3)/96-Boilers]

V. K. GOEL, Secy.

Footnote :—The principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. No. 600 dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications—

- (i) GSR 178 dated 24th March, 1990
- (ii) GSR 179 dated 24th March, 1990
- (iii) GSR 488 dated 9th October, 1993
- (iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993
- (v) GSR 634 dated 25th December, 1993
- (vi) GSR 107 dated 26th February, 1994  
(Corrigendum GSR 223 dated 14th May, 1994)
- (vii) GSR 250 dated 4th June, 1994
- (viii) GSR 402 dated 12th August, 1994
- (ix) GSR 427 dated 20th August, 1994
- (x) GSR 562 dated 12th November, 1994
- (xi) GSR 607 dated 10th December, 1994
- (xii) GSR 83 dated 25th February, 1995
- (xiii) GSR 93 dated 4th March, 1995
- (xiv) GSR 488 dated 9th November, 1996
- (xv) GSR 582 dated 28th December, 1996
- (xvi) GSR 59 dated 25th January, 1997

#### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997

सांका०नि० 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तकनीकी समन्वय अधिकारी (धान कुटाई मिल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तकनीकी समन्वय अधिकारी (धान कुटाई मिल) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : (बहु व्यक्ति) :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :